



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 2016/श्रावण 28, 1938

No. 575]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 2016/SRAVANA 28, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2016

सं. 46/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 806(अ).—जबकि केंद्र सरकार ने, थाइलैंड, चीन तेइपई (ताइवान) और नार्वे (तत्स्मिन पश्चात् जिन्हें विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) में मूलतः उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई और भारत में आयात की जाने वाली तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (तत्स्मिन पश्चात् जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के अंतर्गत आने वाले “कास्टिक सोडा” (तत्स्मिन पश्चात् जिसे विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है), के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, में दिनांक 30 जून, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/1/2010- डीजीएडी, दिनांक 30 जून, 2011 के पदनामित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 634(अ) दिनांक 23 अगस्त, 2011 के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 79/2011- सीमाशुल्क के अंतर्गत विषयगत वस्तुओं पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जबकि पदनामित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खंड-1, दिनांक 8 अगस्त, 2016 में प्रकाशित दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 15/10/2016-डीजीएडी के अंतर्गत, विषयगत देशों में उद्गमित अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 5 की शर्तों और सीमाशुल्क टैरिफ (डंड मर्दों पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (तत्स्मिन

पश्चात् जिसे उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुक्रम में समीक्षा आरंभ की है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा 5 की शर्तों के अनुसार चीन तेइपई (ताइवान) से उद्भूत अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं पर एक और वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है तथा यह भी सिफारिश की है कि थाइलैंड और नार्वे से उद्भूत अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपादन शुल्क को समाप्ति कर दी जाए।

अब अतः सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 634(अ) के अंतर्गत दिनांक 23 अगस्त, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 79/2011-सीमा शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में क्रम सं. 6 के सामने, स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिपादन शुल्क के तहत रखे गए देशों से इतर कोई देश" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ख) पैराग्राफ 2 के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद पैरा 1 में संदर्भित सारणी के क्रम सं. 4, 5, और 6 के सामने विनिर्दिष्ट विषयगत वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिपादन शुल्क, जब तक इसे पहले हटा नहीं लिया जाए, 22 अगस्त, 2017 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगा।"

[फा. सं. 354/89/2011-टीआरयू, (भाग-1)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 79/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 23 अगस्त, 2011 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 634(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2016

No. 46/2016-Customs (ADD)

G.S.R. 806(E).—Whereas in the matter of Caustic Soda (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from, Thailand, Chinese Taipei (Taiwan) and Norway (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the Central Government on the basis of final findings of the designated Authority *vide* notification No.14/1/2010-DGAD, dated the 30th June, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th June, 2011 had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.79/2011-Customs, dated the 23rd August, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 634(E), dated the 23rd August, 2011.

And whereas, the designated authority *vide* notification No.15/10/2016-DGAD, dated the 8th August, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8th August, 2016, has initiated review, in

terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on subject goods, originating in, or exported from, subject countries, has recommended extension of anti-dumping duty for a further period of one year on subject goods, originating in, or exported from, Chinese Taipei (Taiwan), in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and also recommended that anti-dumping duty on subject goods, originating in, or exported from, Thailand and Norway be allowed to lapse.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.79/2011-Customs, dated the 23rd August, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.634(E), dated the 23rd August, 2011, namely:—

In the said notification, -

- (A) in the Table, against serial number 6, for the entry in column (5), the entry “Any country other than attracting anti-dumping duty” shall be substituted.
- (B) after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed on the subject goods specified against serial numbers 4, 5 and 6 of the Table referred to in paragraph 1, shall remain in force up to and inclusive of the 22nd day of August, 2017, unless revoked earlier.”.

[F. No. 354/89/2011-TRU (Pt-1)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note : The principal notification No.79/2011-Customs, dated the 23rd August, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.634(E), dated the 23rd August, 2011.